

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016—वैशाख 9, शक 1938

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.